



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2006/फाल्गुन 22, 1927

No. 223]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2006/PHALGUNA 22, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2006

का.आ. 311(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 406 (अ) तारीख 24 मार्च, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 46 के 50/112 कि.मी. से 92/895 कि.मी. (कृष्णागिरि-रानीपेट-सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चार लेन का बनाने), अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 30 मई, 2005 को “दि हिन्दू” और “दिना थांथी” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विस्लंगों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 46 के 50/112 कि.मी. से 92/895 कि.मी. तक ( कृष्णागिरि - रानीपेट सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	वेल्लोर	वनियामबाड़ी	किलमुरुगई	73/2	निजी	शुष्क	150	1. अनंत नयागी पत्नी अप्पासामी 2. दामोदरन पुत्र अप्पासामी 3. चिदम्बरम पुत्र कुप्पुसामी

[ फा. सं. भाराप्र/18011/23-1/2000-पीआईयू-IV/3डी/110/एलए-538 ]

प्रभाकर, उप सचिव

### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2006

**S.O. 311(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways, number **S.O. 406 (E), dated the 24<sup>th</sup> March, 2005**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (four-laning), maintenance, management and operation of the National Highway No.46 on the stretch from Km.50/112 to Km.92/895 (Krishnagiri – Ranipet section) in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu" and "Dina Thanthi", both dated the 30<sup>th</sup> May, 2005, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that, on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.50/112 to Km.92/895 (Krishnagiri – Ranipet Section) on the National Highway No.46 in the State of Tamil Nadu

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in Square meters	Name of the owners / Interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Vellore	Vanhyambadi	Kilmurugai	73/2	Private	Dry	150	1. Anantha Nayagi w/o Appasami 2. Damodaran s/o Appasami 3. Chidambaram s/o Kuppusami

[F. No. NHAI/18011/23-1/2000-PIU-IV/3D/110/LA-538]

PRABHAKAR, Dy. Secy.